



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3047]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 26, 2016/पौष 5, 1938

No. 3047]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 26, 2016/ PAUSA 5, 1938

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4163(अ).—भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 19 दिसंबर, 2016 की संख्या सा.का.नि. 4088(अ) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की दिनांक 19 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना सं. 1/2/2016—हज के अंग्रेजी रूपांतर में,

- (i) पहले पैराग्राफ में “.....Shri Alhaj Ebrahim Gulam Nabi Shaikhas a member of Haj Committee of India.....” को निम्नलिखित पढ़ा जाए:

“.....Shri Alhaj Ebrahim Gulam Nabi Shaikh as a member of Haj Committee of India.....”

- (ii) श्री अल्हाज इब्राहिम गुलाम नबी शेख के नाम के पहले क्रम सं. 3 को क्रम सं 6 के रूप में पढ़ा जाए।
[फा. सं. 1/2/2016—हज]

जे. आलम, संयुक्त सचिव (वक्फ एवं हज)

नोट: भारतीय हज समिति के सदस्य को नियुक्त करने की प्रमुख अधिसूचना दिनांक 9 जून, 2016 के सं. का.आ. 2024(अ), के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd December, 2016

S.O. 4163(E).—In the English version of notification of the Government of India, in the Ministry of Minority Affairs number 1/2/2016-Haj, dated the 19th December, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 4088(E), dated the 19th December, 2016,

- (i) in the first paragraph for “....Shri Alhaj Ebrahim Gulam Nabi Shaikhas a member of Haj Committee of India....” the following shall be read:

“....Shri Alhaj Ebrahim Gulam Nabi Shaikh as a member of Haj Committee of India....”

- (ii) serial number 3 before the name of Shri Alhaj Ebrahim Gulam Nabi Shaikh shall be read as 6.

[F. No.1/2/2016-Haj]

J. ALAM, Jt. Secy. (Wakf & Haj)

Note: The Principal notification for appointing the member to the Haj Committee of India was published in Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 2024(E), dated 9th June, 2016.